

दिनांक 01-03-2015 से 15-03-2015 तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन

भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली के आह्वान एवं वस्त्र मंत्रालय के निदेशानुसार बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन, बिलासपुर में डॉ. आर. बी. सिन्हा, निदेशक प्रभारी की अध्यक्षता में दिनांक 01-03-2019 से 15-03-2019 तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान संगठन कार्यालय के निदेशक प्रभारी डॉ. आर. बी. सिन्हा ने संगठन एवं अधीनस्थ इकाईयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा ग्रामीण बच्चों एवं रेशमउत्पादक कृषकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने तथा रेशमउत्पादन के क्षेत्र में स्वच्छता रखने करने एवं सेरी अपशिष्ट के वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने का आह्वान किया साथ ही अशोक, आसन के वृक्ष लगाकर तथा कीटपालन कर रोजगार के साथ ही साथ पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु आग्रह किया।

पखवाड़े की शुरुआत दिनांक 01-03-2019 को सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वच्छता शपथ लेकर की। इसके बाद दिनांक 07-03-2019 को स्वच्छता संबंधी लिखित प्रतियोगिता आयोजित की गयी तथा दिनांक 08-03-2019 को शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, पेंडारी के छात्रों को स्वच्छता संबंधी सामग्री वितरित की गई, दिनांक 11-03-2019 को प्रश्नोत्तरी, कार्टून एवं स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दिनांक 12-03-2019 को अपोलो अस्पताल के विशेषज्ञों द्वारा शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, परसदा के छात्रों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया एवं दिनांक 14-03-2019 को स्वच्छता एवं पर्यावरण विषय पर प्रो. जी. डी. शर्मा, माननीय कुलपति अटलबिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के व्याख्यान का आयोजन किया गया। दिनांक 15-03-2019 को स्वच्छता पखवाड़े का समापन समारोह आयोजित किया गया जिसमें प्रो. रवि प्रकाश दुबे, कुलपति, डॉ. सी. व्ही. रामन विश्वविद्यालय, करगी कोटा, बिलासपुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर निदेशक प्रभारी एवं मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए।

